

'आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में भारत सरकार की आईपीडीएस योजना के अंतर्गत धर्मनगर, त्रिपुरा में 33/11 केवी विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन



आईपीडीएस योजना के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नोडल एजेंसी है, अगरतला, 21 अगस्त 2021:

एक अन्य पहल में, आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में, 2X8 एमवीए, 33/केवी सबस्टेशनों का उद्घाटन आज उत्तर त्रिपुरा के धर्मनगर और कुमारघाट जिलों (21 अगस्त 2021) में त्रिपुरा के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णु देव वर्मा द्वारा श्री विश्वबंधु सेन, माननीय उपाध्यक्ष, त्रिपुरा विधान सभा, श्री भाबतोष दास, जिला सभापति, उत्तरी त्रिपुरा, एवं डॉ एम एस केले, प्रबंध निदेशक, त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड और श्री देबाशीष सरकार, निदेशक (तकनीकी), टीएसईसीएल की उपस्थिति में किया गया। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम, आईपीडीएस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।





इस कार्यक्रम में पीएफसी, टीएसईसीएल के वरिष्ठ अधिकारी, उपभोक्ता और बड़े पैमाने पर मीडिया ने भी भाग लिया। उद्घाटन की शुरुआत स्थानीय कलाकारों द्वारा एक सांस्कृतिक गीत और नृत्य की प्रस्तुति के साथ हुई, जिसके बाद कोविड-19 विनियमों की एसओपी के अंतर्गत 'भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष' विषय पर स्कूली बच्चों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। सद्भावना के रूप में, पीएफसी ने विजेता बच्चों को नकद पुरस्कार वितरित किए। धर्मनगर की कुल परियोजना लागत 7.18 करोड़ रुपए है। कुल लाभार्थी 11287 हैं जबकि कुमारघाट सबस्टेशन की कुल परियोजना लागत 7.09 करोड़ रुपए है और इससे 8897 लोग और उनके परिवार प्रभावित होंगे। जहां एक ओर परियोजनाओं के कार्यान्वयन से विद्युत संस्था के राजस्व में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर लोड शेडिंग और एटी एंड सी हानि को कम किया जाएगा जिससे त्रिपुरा के लोगों को लाभ होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कुल परियोजना लागत का 85% प्रदान किया जाता है।

